

**1113-B**

**कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा, 2022-23**  
**रसायन शास्त्र-220**  
**(माध्यम हिन्दी)**

(कुल प्रश्नों की संख्या : 19)  
(समय : 03 घण्टे)

(कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 04)  
(पूर्णांक : 70)

**नेर्देश –**

- (1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (2) प्रश्न क्रमांक – 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके लिए  $1 \times 28 = 28$  अंक निर्धारित हैं।
- (3) प्रश्न क्रमांक – 5 से 12 तक 2 अंक के हैं। शब्द सीमा 30 शब्द है।
- (4) प्रश्न क्रमांक – 13 से 16 तक 3 अंक के हैं। शब्द सीमा 75 शब्द है।
- (5) प्रश्न क्रमांक – 17 अंक 4 के हैं। शब्द सीमा 120 शब्द है।
- (6) प्रश्न क्रमांक – 18 से 19 तक 5 अंक के हैं। शब्द सीमा 150 शब्द है।
- (7) प्रश्न क्रमांक – 5 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है।

प्र.1 निम्न कठिनता अनुमा

(1×7=7)

- (i) अणुआ की सख्ता सर्वाधिक है -  
(a) 2 ग्राम हाइड्रोजन में  
(b) 9 ग्राम जल में  
(c) 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में  
~~(d)~~ 45 ग्राम प्लॉकोस में
- (ii) निम्नलिखित में से मात्रक रहित राशि है -  
(a) ग्रूललता (b) गोलरता  
~~(c)~~ मौल अश (d) द्रव्यमान प्रतिशत
- (iii) रासायनिक में इनकी संख्या समान होती है -  
~~(a)~~ प्रोटॉन (b) न्यूट्रॉन  
(c) प्रोटॉन व न्यूट्रॉन (d) न्यूक्लियान
- (iv) ऐसे तत्व, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं, कहलाते हैं -  
(a) एक्टिनोइड (b) संक्रमण तत्व  
~~(c)~~ लैथेनोइड (d) हैलोजन
- ~~(v)~~ परमाणु क्रमाक्र 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं -  
(a) उत्कृष्ट गैसें (b) ~~हैलोजन~~  
(c) भारी तत्व (d) हल्के तत्व
- (vi) रेखीय अणु हैं -  
(a)  $\text{SO}_2$  (b)  ~~$\text{CO}_2$~~   
(c)  $\text{NO}_2$  (d) तीनों सही
- (vii) सर्वाधिक सहस्रोजी गुण है -  
(a)  $\text{NaCl}$  (b)  $\text{MgCl}_2$   
(c)  $\text{AlCl}_3$  (d)  ~~$\text{SiCl}_4$~~

प्र.2 निम्न स्थान भरिये -

(1×7=7)

- (i) 18 मिली जल में मौलों की संख्या ..... होगी।
- (ii) एक कक्षक में अधितकम ..... इलेक्ट्रॉन होते हैं।
- (iii) p-p अतिव्यापन से ..... बंध बनता है।
- (iv)  $\text{CH}_4$  में ..... रासायनिक आबंधन होता है।
- (v) आवर्त सारणी में धातु ..... और स्थित है।
- (vi)  $\text{PF}_5$  अणु की आकृति ..... है।
- (vii) ..... को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं।

प्र३ जीडी बनाइये -

(1×7=7)

(A)

- (i) उत्कृष्ट गैस
- (ii) हारे की सरचना
- (iii) हेलोजन
- (iv)  $\text{CH}_4$
- (v) कारीग मृदा धातु
- (vi) कार धातु
- (vii) HF

(B)

- (a) गलतरीन
- (b) द्रव है
- (c) गैस है
- (d) चिह्नित आवक
- (e) नियोन
- (f) कैटिक्याम
- (g)  $\text{SP}^3$  संकरण
- (h) पोटिक्याम

प्र४ एक वाक्य/एक शब्द में उत्तर दीजिये -

(1×7=7)

- (i) 500 में कितने सार्थक अक है?
- (ii) शुद्ध जल की मोलरता कितनी है?
- (iii) अनिश्चितता सिद्धात में क्या अनिश्चित होता है?
- (iv) आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं?
- (v) नाभिकीय आवेदन में दृष्टि होने पर आवर्त में परमाणुक त्रिज्ञा पर क्या प्रभाव होगा?
- (vi) LCAO का पूरा नाम क्या है?
- (vii) लोहा, ताबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों विस्थापित करता है?

प्र५ गुणित अनुपात का नियम लिखिए।

(2)

अथवा

गै-लुसाक का गैस आयतन सदृशी नियम लिखिए।

प्र६ मेथेन के दहन में मेथेन को सीमात अभिकर्मक क्यों मानते हैं?

(2)

अथवा

5005 व 0.0048 को वैज्ञानिक अकन में लिखिए।

प्र७ वौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए।

(2)

अथवा

मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिये।

प्र८ परमाणु क्रमांक (संख्या) की परिभाषा लिखिए।

(2)

अथवा

द्रव्यमान संख्या की परिभाषा लिखिए।

प्र९ क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए।

(2)

अथवा

$n+1$  का नियम लिखिए।

प्र.10 एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? (2)

अथवा

विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।

प्र.11 उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य वयों होती है? (2)

अथवा

हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च वयों होती है?

प्र.12 निम्नलिखित परमाणुओं के लुईस विद्यु प्रतीक लिखिए - (2)

Mg, B, O, Na

अथवा

C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> व C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> अणुओं में पाई व सिग्मा बंधों की संख्या लिखिए।

प्र.13 ध्रुवीय सहसंयोजन आवंध को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। (3)

अथवा

आयनिक आवंध बनाने के लिए अनुकूल कारक लिखिए।

प्र.14 इलेक्ट्रॉन क्रणात्मकता एवं इलेक्ट्रॉन लक्ष्य एथेली में अंतर लिखिए। (3)

अथवा

प्रभावी नाभिकीय आवेश एवं नाभिकीय आवेश में अंतर लिखिए।

प्र.15 पदार्थ की द्वृत प्रकृति क्या है? इससे संबंधित डी-बॉर्ली समीकरण लिखिए। (3)

अथवा

पाउली का अपदर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए।

प्र.16 समस्थानिक व समभारिक में अंतर लिखिए। (3)

अथवा

कक्ष व कक्षक में अंतर लिखिए।

प्र.17 VSEPR सिद्धांत उदाहरण सहित लिखिए। (4)

अथवा

अणु कक्षक सिद्धांत लिखिए। इसके आधार पर O<sub>2</sub> अणु की प्रकृति लिखिए।

प्र.18 सक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखिए एवं इनके सामान्य गुण लिखिए। (5)

अथवा

अंतर सक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखिए एवं इनके सामान्य गुण लिखिए।

प्र.19 निम्नलिखित तत्वों के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या लिखिए - (5)  
¹³C<sub>6</sub>, <sup>16</sup>O<sub>8</sub>, <sup>24</sup>Mg<sub>12</sub>, <sup>56</sup>Fe<sub>26</sub>, <sup>88</sup>Sr<sub>38</sub>

अथवा

एक आयन का द्रव्यमान 56 है जिस पर 3 इकाई धन आवेश है एवं इलेक्ट्रॉन की तुलना में 30.4% अधिक न्यूट्रॉन है। आयन का सकेत ज्ञात कीजिए।